

## प्रेस नोट-दिनांक 11-10-2021

**थाना खेसरहा पुलिस ने 01 नफर वांछित अभियुक्त को सम्बन्धित मु0अ0सं0 75/21 धारा 363,366,376(2) भा.द.वि व 5/6 पोक्सो एक्ट में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय/जेल भेजा गया।**

डॉ. यशवीर सिंह पुलिस अधीक्षक महोदय सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में, श्री सुरेश चन्द्र रावत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन, श्री अरुण चन्द क्षेत्राधिकारी बाँसी के कुशल पर्यवेक्षण, श्री रवीन्द्र कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना खेसरहा सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 11.10.2021 को उ0नि0 श्री पप्पू कुमार मय हमराह मुख्य आरक्षी अनिल चौहान के 01 नफर वांछित अभियुक्त सम्बन्धित मु0अ0सं0 75/21 धारा 363,366,376(2),IPC व 5/6 पाक्सो एक्ट को बाँसी बस स्टैंड से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय/जेल भेजा गया।

### गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. अमर सिंह उर्फ विक्रम पुत्र बिहारी लाल निवासी ग्राम मदनापुर थाना निघासन जनपद लखीमपुर खीरी  
**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-**

1. उ0नि0 श्री पप्पू कुमार थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर
2. मुख्य आरक्षी अनिल कुमार चौहान थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर

## प्रेस नोट-दिनांक 11-10-2021

**महिला सशक्तिकरण के क्रम में महिला बीट पुलिस अधिकारी व महिला हेल्प डेस्क अधिकारी द्वारा चलाया गया जागरूकता अभियान**

डॉ0 यशवीर सिंह पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा "महिला सशक्तिकरण व महिलाओं के सुरक्षा एवं जागरूकता अभियान" के संबंध में दिए गए निर्देश के क्रम में व श्री सुरेश चंद्र रावत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर व श्री अजय कुमार श्री वास्तव क्षेत्राधिकारी डुमरिया गंज के कुशल पर्यवेक्षण में आज दिनांक 11.10.2021 को श्री राजेश कुमार मौर्य थानाध्यक्ष थाना पथरा बाजार सिद्धार्थनगर के निर्देशन में महिला बीट पुलिस अधिकारी, महिला आरक्षी प्रतिमा दुबे, महिला आरक्षी शीला गौड़ द्वारा महिलाओं, बच्चों के साथ महिला सम्बन्धी अपराध, महिला सुरक्षा के सम्बन्ध में ग्राम कम्हरिया खुर्द (डीह) में जागरूकता अभियान के तहत महिलाओं को जागरूक किया गया तथा महिलाओं व बच्चियों को महिला सम्बन्धी अपराध पर अंकुश लगाने हेतु जारी हेल्प लाइन 1090 वुमेन पावर लाइन, 181 महिला हेल्प लाइन, 1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन, 111 पुलिस हेल्प लाइन, 1098 चाईल्ड लाइन के सम्बन्ध में जानकारी दी गई।

## प्रेस नोट-दिनांक 11-10-2021

आज दिनांक 11.10.2021 को श्रीमती शांति देवी पत्नी श्री राजेश पता बर्डपुर टोला 07 थाना कपिलवस्तु जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र पुलिस चौकी शुद्धोधन पर दिया कि उनकी पुत्री सोनी जिसकी उम्र लगभग 4 वर्ष है बर्डपुर बाजार में कहीं गुम हो गयी है।

इस सूचना पर श्री धमेन्द्र यादव, चौकी प्रभारी शुद्धोधन मय पुलिसबल के साथ तत्काल उस बच्ची के कुशल बरामदगी हेतु बर्डपुर बाजार में चेकिंग शुरू कर दिया गया, करीब एक घण्टे के तलाशी अभियान के दौरान उस बच्ची को तिलकपुर मोड़ बर्डपुर से पुलिस टीम द्वारा सकुशल बरामद कर परिजनों को सुपुर्द किया गया। बच्ची के सकुशल बरामदगी पर बच्ची के परिजनो व कस्बे के सभ्रांत व्यक्तियों द्वारा पुलिस के त्वरित सराहनीय कार्यवाही की भूरि-भूरि प्रशंसा की गई।

### सराहनीय कार्य करने वाली पुलिस टीम का विवरण।

- 1- उ0नि0 धर्मेन्द्र कुमार यादव, चौकी प्रभारी शुद्धोधन थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर।
- 2- हे0का0 प्रमोद जायसवाल, चौकी शुद्धोधन थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर।
- 3- का0 चन्द्र मोहन मौर्या, चौकी शुद्धोधन थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर।
- 4- हो0गार्ड संजय मिश्रा, चौकी शुद्धोधन थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर

## प्रेस नोट-दिनांक 11-10-2021

### थाना मिश्रौलिया पुलिस ने वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार, भेजा जेल।

डॉ0 श्री यशवीर सिंह, पुलिस, अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्री सुरेश चन्द रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण व श्री रमेश चन्द्र पाण्डेय, क्षेत्राधिकारी इटवा के कुशल मार्गदर्शन में आज दिनांक 11-10-2021 को श्री पंकज कुमार पाण्डेय, थानाध्यक्ष मिश्रौलिया के नेतृत्व में उ0नि0 श्री सर्वेश यादव मय टीम द्वारा वाद संख्या 101/2018 धारा 363,366 A व 7/8 पाक्सो एक्ट भा0द0वि0 में वांछित एक नफर वारंटी अभियुक्त, नईम पुत्र रहीस साकिन बभनी बाजार थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय/जेल भेजा गया।

### गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01- नईम पुत्र रहीस साकिन बभनी बाजार थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

01- उ0नि0 श्री सर्वेश यादव, थाना मिश्रौलिया, जनपद सिद्धार्थनगर।

02- का0 बुद्धेश्य कुमार, थाना मिश्रौलिया, जनपद सिद्धार्थनगर।

## प्रेस नोट-दिनांक 11-10-2021

### थाना खेसरहा पुलिस द्वारा करीब एक वर्ष से पति पत्नी के बीच पारिवारिक विवाद में कराया गया सुलह समझौता ।

आज दिनांक 11.10.2021 आवेदिका ताहिरा खातून पत्नी मो0 जहीरुद्दीन साकिन बतसा थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा खुद के पति जहीरुद्दीन के मध्य पारिवारिक विवाद के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया गया । श्री रवीन्द्र कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर के निर्देशन पर थाना स्थानीय के उ0नि0 शिवकुमार यादव, का0 जयसिंह चौरसिया व महिला आरक्षी प्रिया सिंह द्वारा उक्त प्रकरण में दोनो पक्षो को थाना हाजा पर बुलाकर आपस में समझा बुझाकर विवाद का निपटारा कराया गया । जिस पर आवेदिका व उसके पति द्वारा एक दूसरे को मिष्ठान खिलाकर राजी खुशी सुलह समझौता के लिए तैयार हुए । उक्त विवाद करीब 1 वर्ष पूर्व से चल रहा था जिसका आज निस्तारण किया गया ।

## प्रेस नोट-दिनांक 11-10-2021

### थाना लोटन जनपद सिद्धार्थनगर से 03 अभियुक्त को धारा 11 कस्टम अधिनियम में गिरफ्तार कर कस्टम कार्यालय ककरहवा भेजा गया ।

डॉ. यशवीर सिंह पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री सुरेश चंद्र रावत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में व श्री प्रदीप कुमार यादव क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन व थानाध्यक्ष लोटन श्री अभिमन्यु सिंह के नेतृत्व में आज दिनांक 11.10.2021 को तस्करी रोकथाम व क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए धारा 11 कस्टम अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार कर कस्टम कार्यालय ककरहवा भेजा गया।

#### गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. इस्तेयाक पुत्र शहीद सा. ठोठरी थाना लोटन जनपद सिद्धार्थनगर।
2. नीरज कुमार दुबे पुत्र कैलाश नाथ दुबे सा. रसियावल खुर्द थाना लोटन जनपद सिद्धार्थनगर।
3. मनोज पुत्र महेश सा. ठोठरी थाना लोटन जनपद सिद्धार्थनगर।

#### बरामद माल का विवरण

- 10 बोरी मे 515 किग्रा चावल व 3 अदद पुरानी साइकिल ।

#### गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

01. उ.नि. रतिश चंचल प्रभारी चौकी हरिवंशपुर थाना लोटन ।
02. हे.का० रामराज चौहान थाना लोटन ।
- 03 हे.का हरेन्द्र शरण शुक्ल थाना लोटन ।
- 04 हे.का. राजेंद्र यादव थाना लोटन ।
- 05 का. देवेश सिंह थाना लोटन ।
- 06 का. संजीव कुमार थाना लोटन ।

## प्रेस नोट-दिनांक 11-10-2021

जनपद सिद्धार्थनगर में गठित एण्टी रोमियो स्क्वाड पुलिस टीम द्वारा मिशन शक्ति के अन्तर्गत जनपद के स्कूल-कॉलेज व भीड़-भाड़ वाले इलाके आदि स्थानों पर महिलाओं के साथ अभद्रता व अश्लील हरकत आदि करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की गयी।

डॉ० यशवीर सिंह, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में मनचलों एवं रोमियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री सुरेश चन्द्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में आज दिनांक 11.10.2021 को प्रभारी एंटी रोमियो/ शक्ति मोबाइल महिला उ०नि० श्रीमती पूनम मौर्या द्वारा एंटी रोमियो कार्यवाही के अन्तर्गत थाना सिद्धार्थ नगर व जोगिया उदयपुर में आज स्कूल-कॉलेज/कोचिंग सेन्टर के पास तथा थानाक्षेत्र के आस-पास के मुख्य सड़को, चौराहों, पार्को आदि में चेकिंग की गयी। इस दौरान 03 शोहदे पकड़े गये। पकड़े गये शोहदो के विरुद्ध उचित कार्यवाही की गई। शोहदो के घर वालो से बात करने के बाद घरवालों के द्वारा पुनः गलती ना करने के आश्वासन तथा शोहदो द्वारा माफी मांगने व भविष्य में पुनरावृत्ति ना करने के शपथ खाने के बाद चेतावनी देकर छोड़ा गया।

### एण्टी रोमियों टीम का विवरण-

- 01- महिला उ०नि० श्रीमती पूनम मौर्या प्रभारी एण्टी रोमियो जनपद सिद्धार्थनगर।
- 02- आरक्षी राकेश यादव एण्टी रोमियो टीम जनपद सिद्धार्थनगर
- 03- महिला आरक्षी रीनू एण्टी रोमियो टीम जनपद सिद्धार्थनगर।

## प्रेस नोट-दिनांक 11-10-2021

### 0.1150 ग्राम गांजा के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

डॉ० श्री यशवीर सिंह, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश पर एवं श्री सुरेश चन्द रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देश पर व श्री प्रदीप कुमार यादव क्षेत्राधिकारी सदर सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कृष्णदेव सिंह थाना को० सि०नगर जनपद सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में.....

आज दिनांक 11.10.2021 को अपराध एवं अपराधियों के बिरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा जमुआर नाला पुल के आगे पुरानी नौगढ मार्ग पर एक अभियुक्त मुहम्मद असद पुत्र मुहम्मद अहमद सिद्दीकी सा० सिसहनिया थाना व जिला सि०नगर को पकडा गया पकड़े गये अभियुक्त के पास से 1150 ग्राम गांजा बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्त को थाना को० सि०नगर पर लाया गया व उसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु०अ०सं०- 244/2021 धारा 8/20(B) NDPS ACT पंजीकृत किया गया अभियुक्त को माननीय न्यायालय/जेल भेजा गया।

### अभियुक्तों का विवरण -

1. मुहम्मद असद पुत्र मुहम्मद अहमद सिद्दीकी सा० सिसहनिया थाना व जिला सि०नगर गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम
- 1-उ०नि० श्री अजयनाथ कनौजिया थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर जनपद सिद्धार्थनगर।
- 2-का० कविन्द्र चौहान थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर जनपद सिद्धार्थनगर।
- 3-रि०का० विशाल राजभर थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर जनपद सिद्धार्थनगर

## प्रेस नोट-दिनांक 11-10-2021

### वारंटी को थाना कपिलवस्तु पुलिस ने किया गिरफ्तार

डॉ. यशवीर सिंह, पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री सुरेश चन्द्र रावत अपर पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में व श्री प्रदीप कुमार यादव, क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन व थानाध्यक्ष कपिलवस्तु श्री महेश सिंह के नेतृत्व में आज दिनांक 11.10.2021 को एक वारंटी को ग्राम मिश्रोलिया से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

#### गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1-मुख्तार अहमद पुत्र अब्दुल रहीम ग्राम बिहरा थाना कोतवाली कपिलवस्तु जनपद सिद्धार्थनगर।

#### गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण: -

1.उप निरीक्षक दिलीप यादव थाना कोतवाली कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर।

## प्रेस नोट-दिनांक 11-10-2021

डॉ० यशवीर सिंह, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में “अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान” के अन्तर्गत श्री सुरेश चन्द्र रावत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में श्री राणा महेन्द्र प्रताप सिंह, पुलिस उपाधीक्षक शोहरतगढ़ के कुशल निर्देशन में अभियान के अन्तर्गत थाना शोहरतगढ़, जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा कृत कार्यवाही-

आज दिनांक 11.10.2021 को प्रभारी निरीक्षक श्री राजेन्द्र बहादुर सिंह के निर्देशन में उ.नि. सूर्य प्रकाश सिंह चौकी प्रभारी कोटिया मय टीम द्वारा ग्राम चरिगवा के पास से 01 व्यक्ति को अवैध नेपाली शराब के साथ गिरफ्तार कर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 246/21 धारा 60/63 आब.अधि. आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है-

#### गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

● रमेश उर्फ रामू पुत्र कोदयी निवासी बनचौरी थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर बरामदगी का विवरण –

- 25 शीशी अवैध नेपाली शराब

#### गिरफ्तार करने वाली टीम-

- उ०नि० सूर्यप्रकाश सिंह चौकीप्रभारी कोटिया थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर
- का. संदीप यादव चौकी कोटिया थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर।

प्रेस नोट-दिनांक 11-10-2021

## प्रदेश-स्तर पर लंबित विवेचनाओं के निस्तारण में जनपद सिद्धार्थनगर को मिला पंचम स्थान ।

विवेचनाओं के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए जनपद सिद्धार्थनगर को रेंज बस्ती एवं जोन गोरखपुर में प्रथम स्थान तथा प्रदेश-स्तर पर पांचवां स्थान प्राप्त हुआ है, यह स्थान वर्ष 2021 के आरम्भ से लेकर 10.10.2021 तक की है। डॉक्टर यशवीर सिंह, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन व श्री सुरेश चन्द्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक (नोडल अधिकारी, CCTNS) के कुशल पर्यवेक्षण में जनपद सिद्धार्थनगर जोन एवं रेंज में प्रथम स्थान प्राप्त करने में सफल हुआ है।

जैसा कि विदित है, कि शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक लंबित विवेचनाओं का निस्तारण भी है। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर ने शासन की इस मंशा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए CCTNS के नोडल/प्रभारी, अपर पुलिस अधीक्षक व जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों व समस्त पुलिसकर्मियों को विभिन्न स्थानों पर लंबित विवेचनाओं को गम्भीरता से लेते हुए उसका सही व समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिये थे, उक्त के क्रम में जनपद सिद्धार्थनगर के विभिन्न थानों में वर्ष 2021 में अब तक पंजीकृत कुल 2651 विवेचनाओं में से 2331 विवेचना का समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया गया। लंबित विवेचनाओं का प्रतिशत मात्र 11.11% है। विवेचनाओं के निस्तारण में प्रदेश में जनपद सिद्धार्थनगर का पांचवां स्थान प्राप्त होना यह दर्शाता है, कि सिद्धार्थनगर पुलिस ने लंबित विवेचनाओं पर निस्तारण में अत्यंत तत्परता से कार्य किया है।

